



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)  
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 300] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 12, 1982/आश्विन 20, 1904  
No. 300] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 12, 1982/ASHVINA 20, 1904

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 1982

सां०का०नि० 611(अ)—केन्द्रीय सरकार, खाद्य अप्रमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात् खाद्य अप्रमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करना चाहती है। जैसा कि उक्त उपधारा (1) में अपेक्षित है, कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति पर विचार किया जायेगा जिसकी उस राजपत्र की प्रतियाँ, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है।

पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

आक्षेप या सुझाव सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली को भेजे जायेंगे।

प्रारूप नियम

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अप्रमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 1982 है।

2. खाद्य अप्रमिश्रण निवारण नियम, 1955 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 49 के उपनियम 14 के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम प्रस्तुत/स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

“(15) कोई भी व्यक्ति उन परिसरों में किसी कीटनाशी का भण्डारण नहीं करेगा या उन्हें बिक्री के लिये नहीं रखेगा या उनका विक्रय प्रशुभात नहीं करेगा जिनमें खाद्य वस्तुओं का भण्डारण, विनिर्माण किया जाता है या उन्हें विक्रय के लिये रखा जाता है।

स्पष्टीकरण:—इस उपनियम के प्रयोजनार्थ अधिव्यक्ति “कीटनाशी” का वही अर्थ होगा जो उसका कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 45) में है।”

3. उक्त नियमों के नियम 65 को उसके उपनियम (2) के रूप में पुनर्संशोधित किया जायेगा और इस प्रकार पुनर्संशोधित उपनियम (2) से पूर्व निम्नलिखित उपनियम प्रस्तुत/स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

“(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, खाद्यान्नों पर किसी कीटनाशी का सीधे उपयोग नहीं किया जायेगा।”

4. उक्त नियमों के परिशिष्ट ख में, मद क-19 के खंड (11) के पाल पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जायेगा, अर्थात्:—

“(11) पैकिंग के समय इसमें सिन्थेटिक विटामिन “ए” प्रति ग्राम 25 आई०यू० से कम नहीं होगा और फुटकर बिक्रम स्थल से लिया गया प्रत्येक नमूना विटामिन “ए” का नकारात्मक परीक्षण दर्शित करेगा।”

मिसल सं० पी०-15014/2/82-पी०एच०/  
(एफ०एच० एन०) पी० एफ० ए० (पी०टी०)  
भार० के० मिथल, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 1962

**G.S.R. 611(E).**—The following draft rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 which the Central Government proposes to make, after consultation with the Central Committee for Food Standards, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), is hereby published, as required by the said sub-section (1), for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of ninety days from the date on which the copies of the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public.

Any objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government.

The objections and suggestions, if any, may be sent to the Secretary to the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, Nirmal Bhawan, New Delhi.

### DRAFT RULES

1. These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (Amendment) Rules, 1982.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 49, after sub-rule (14) the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(15) No person shall store or expose for sale or permit the sale of any insecticides in the same premises where articles of food are stored, manufactured or exposed for sale.

Explanation:—For the purposes of this sub-rule the expression “Insecticide” shall have the meaning assigned to it in the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968).”

3. Rule 65 of the said rules shall be re-numbered as sub-rule (2) thereof and before sub-rule (2) as so renumbered the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(1) Subject to the provisions of sub-rule (2) no insecticides shall be used directly on foodgrains.”

4. In Appendix B to the said rules, in item A.19, for clause (xi), the following clause shall be substituted, namely:—

“(xi) It shall contain not less than 25 i.u. of synthetic Vitamin ‘A’ per gram at the time of packing and any sample taken at the retail point shall show positive test for Vitamin A.”

[F. No. P 15014/2/82-PH(F&N)PFA (Pt.)]

R. K. SINGHAL, Jt. Secy.